

****दुनिया का है पालनहार**
****जो करता फूलों से भी प्यार और काँटों से प्यार**
****उसने न किया कोई भेद भाव**
****ऐसा हो वो मालिक सबका जिम्मेदार**
****करता सबका वो कल्याण**
****चाहे साधू संत हो कोई डाकू या पापी अत्याचारी**
****वेश्या हो या अति विकारी**
****सबका होता है उद्धार**
****प्रभु की होती कृपा सब पर**
****है वो निरहंकारी परोपकारी**
****आया संगम पर लेकर**
****दिव्या गुणों की भण्डारी**
****भर लो बुद्धि करके हलकी और खाली**
****इसमें ज्ञान गुण और शक्तियाँ ढेर सारी।**